

teach us
to pray



World Weekend
of Prayer
for Children at Risk
3-4 JUNE 2017

celebrating 21 years

प्रार्थना से परिवर्तन संभव है। बच्चों की प्रार्थना से परमेश्वर प्रसन्न होते हैं।

यीशु ने उन से कहा, “हां; क्या तुम ने यह कभी नहीं पढ़ा, कि **बालकों और दूध पीते बच्चों के मुंह से तु ने स्तुति सिद्ध कराई?**” मत्ती २१:१६

कई ऐसी परिस्थितियां हैं जिनका सामना बच्चों एवं किशोरों को नहीं करना चाहिए विशेषकर प्रगतिशील देशों के नगरों में; वैसी परिस्थितियां जो बच्चों को एक सुरक्षित एवं प्रेममय पारिवारिक जीवन से वंचित रखती हैं। आइये विश्व सप्ताहांत प्रार्थना की २१वीं वर्षगांठ पर हम दस लाख बच्चों को उत्साहित करें की वे प्रार्थना करें एवं परमेश्वर के आवाज़ को सुनें: ताकि उनमें स्थाई परिवर्तन को प्राप्त किया जा सके।

हमारे साथ प्रार्थना में सहभागी हो जाईये..

प्रभु यीशु,

बच्चों को आपसे से वार्तालाप करने एवं आपकी आवाज़ सुनने के लिए उत्साहित, प्रशिक्षित एवं सशक्त करने में हम सभी की सहायता करें। बच्चे जिनका जीवन जोखिम में है और जो कठिन जीवन व्यतीत कर रहे हैं, वे प्रार्थना के द्वारा आपके समीप आएँ एवं अपने आस-पास के लोगों पर आपको प्रगत करने पाएँ।

प्रभु, हमें प्रार्थना करना सिखाएं। आमीन।

विश्व सप्ताहांत प्रार्थना आयोजित करने के दस कारण

- १. उत्पत्ति**
२१ वर्ष पूर्व प्रार्थना के द्वारा ही वीवा का प्रारम्भ हुआ था।
- २. एकता**
कलीसिया में विभिन्ता के बावजूद हम एक साथ प्रार्थनाकर सके हैं इस का एक सम्मिलित प्रभाव होता है।
- ३. विनम्रता**
परमेश्वर को समर्पित होने में सहायता करती है।
- ४. समझ**
जोखिम में जीवन बिताने वाले बच्चों के समस्याओं की जानकारी प्राप्त होती है।
- ५. गति**
इससे हमें पुरे वर्ष उद्देध्य एवं सामर्थ प्राप्त होता है।
- ६. सामान्य गतिविधि**
किसी कठिन उपाय या प्रयोजन की आवश्यकता नहीं।
- ७. आशीष**
लोग प्रतिबद्ध एवं एकजुट होकर परिवर्तित होते हैं।
- ८. नेटवर्क**
प्रार्थना से नेटवर्क की स्थापना एवं विस्तार होता है।
- ९. सौपना**
प्रार्थना में बच्चों को अगुवाई सौपना।
- १०. तैयार, प्रेरित एवं प्रशिक्षित करना**
जिस प्रकार परमेश्वर से हमें प्रेरणा प्राप्त हो

बाइबिल से कुछ प्रासंगिक पद

फिर वह किसी जगह प्रार्थना कर रहा था: और जब वह प्रार्थना कर चुका, तो उसके चेलों में से एक ने उस से कहा; 'हे प्रभु, जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखलाया वैसे ही हमें भी तू सिखा दे।' लुका ११:१

'तू ने अपने बैरियों के कारण बच्चों और दूध पिउवों के द्वारा सामर्थ्य की नेव डाली है, ताकि तू शत्रु और पलटा लेने वालों को रोक रखे।' भजन ८:२

बातें करने में उतावली न करना, और न अपने मन से कोई बात उतावली से परमेश्वर के साम्हने निकालना, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में हैं और तू पृथ्वी पर है; इसलिये तेरे वचन थोड़े ही हों॥ सभोउपदेशक ५:२

तब यहोवा आ खड़ा हुआ, और पहिले की नाई पुकारा, 'शमूएल! शमूएल!' शमूएल ने कहा, 'कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है।' १शमूएल ३:१०

'परन्तु जब तू प्रार्थना करे, तो अपनी कोठरी में जा; और द्वार बन्द कर के अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर; और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है, तुझे प्रतिफल देगा।' मत्ती ६:६

आप क्या कर सकते हैं >

हाल के वर्षों में आयोजित कार्यक्रमों के उदाहरण-

इटली: एक कार्यक्रम जिसमें बच्चों की प्रार्थना, स्तुति के गीत, कविता पाठ, उपवास एवं नगर में एक जुलूस का आयोजन।

ऑक्सफ़ोर्ड यु के: रविवार संध्या की आराधना, जिसमें प्रार्थना स्थल (स्थानीय प्रोजेक्ट, सीरिया/लेबनान, गाज़ा/पैलेस्टाइन, एवं बाल सैनिक) प्रदर्शित किये गए। बच्चों की गतिविधियों एवं ध्यान केंद्रित विडियो का प्रदर्शन।

कैनसस यु एस ए: प्राथमिक से ८ वि कक्षा के बच्चों के लिए विद्यालय में 'प्रार्थना स्थल' के साथ प्रार्थना; छात्रों ने प्रार्थना की अगुवाई की तथा डब्लू डब्लू पी को (चित्र एवं स्लाइड) दिखाया गया और अंत में सामूहिक प्रार्थना।

मवांजा तंज़ानिया: भोजन के साथ प्रार्थना दिवस- बच्चों के द्वारा कायर, ड्रामा एवं सामूहिक प्रार्थना।

गुडुरु, भारत: प्रार्थना एवं आराधना गिरजे के समीप एक तंग बस्ती के अनाथालय में रविवार की आराधना एवं भोजन का आयोजन ताकि गिरजे की बेहतरी एवं ज्यादा लोगों के भोजन के लिए संसाधन जुट सके।

वैन चाय, होंगकॉंग : बच्चों के लिये ध्यान एवं प्रार्थना, एक पूरी कलीसियाई आराधना, वीवा लिंक के द्वारा सुसमाचार प्रचार।

ज़िम्बाब्वे हरारे : बच्चों के द्वारा शनिवार को घरों में तथा रविवार को गिरजे में प्रार्थना।

हमारी सामग्रियों के अधिक जानकारी के लिए जाएँ : [डॉ. डोरलद डेव्हनदोपरडेइर चोम](#)

- कलीसिया के कार्यकर्ताओं एवं अगुओं के लिए वेब आधारित कार्यक्रम - बच्चों को प्रार्थना करने एवं परमेश्वर की आवाज़ सुनने के लिए प्रशिक्षण।
- बच्चों के लिए एक प्रार्थना पुस्तिका जिसमें बच्चों के द्वारा चित्र के माध्यम से हन्ना की कहानी तथा बच्चों की समस्याओं को प्रदर्शित किया गया है।
- आभासी प्रार्थना स्थान (वर्चुअल स्पेस) जहाँ बच्चे कार्यक्रम के आयोजित होने तक तथा उसके उपरांत अपने प्रार्थना विषय एवं प्रार्थना- चित्र पोस्ट कर सकें।
- हमारे फेसबुक पेज पर जाकर देखें [उट उचइबोकचोम/ढढफरडेइर](#) दूसरे क्या कर रहें हैं

विश्व प्रार्थना सप्ताहांत आंदोलन' एक विश्वव्यापी पहल है जिसका आयोजन प्रत्येक वर्ष जून माह के प्रथम सप्ताहांत में होता है, जिसमें ४० से अधिक देशों के सैकड़ों-हज़ार व्यवस्क एवं बच्चे भाग लेते हैं। 'वीवा' एक अंतरराष्ट्रीय कल्याण संस्था है, जिसका उद्देश्य, विश्व के ३७ सामुदायिक नेटवर्कों के माध्यम से, 'सामूहिक प्रयास से उत्पन्न शक्ति के प्रभाव से बच्चों के जीवन में स्थाई परिवर्तन को संभव करना है।'